

an&gt;

Title: Need to set up a power sub-station in ratapgarh district, Uttar Pradesh.

**कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़):** प्रतापगढ़ जनपद जो बहुत ही पिछड़ा है, यहां पर गरीबी रेखा से नीचे बहुत सारे लोग जीवन यापन करते हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं। यहां पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण इत्यादि का कुछ कार्य हुआ है, शेष कार्य सौभाग्य योजना (पॉवर फॉर ऑल) के अंतर्गत पूरा किया जाना है।

प्रतापगढ़ का विद्युत वितरण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है। मेरे संसदीय क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि यहां पर पूरे जनपद में वोल्टेज बहुत ही कम रहता है, जिससे जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां पर 400 के.वी. क्षमता के उपकेंद्र के बन जाने से इस समस्या से निजात मिल सकती है।

अतः मैं यह मांग करता हूं कि प्रतापगढ़ जनपद में 400 के.वी. क्षमता के उपकेंद्र की स्थापना कराये जाने हेतु धन स्वीकृत कर ऊर्जा मंत्रालय से संस्तुति प्रदान कर समस्या का समाधान कराये जाने की कृपा करें।

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND  
MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI  
ANANTHKUMAR): Sir, I have a humble request to make that just now,

we have concluded BAC. It is everybody's request that today, we should take up the Negotiable Instruments (Amendment) 2017 first. The item which has been listed before it in the agenda, namely, the Prevention of Corruption (Amendment) Bill may be taken up tomorrow. Therefore, kindly take up Item No.27 for discussion now.

HON. DEPUTY SPEAKER: I think the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** महोदय, शून्यकाल में हमारे सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया है।... (व्यवधान)